

MP Board Class 8th General English BchYg Chapter 10 The Balloon Man

The Balloon Man Summary

1. He always comes on market days,
And holds balloons-a lovely bunch,
And in the market square he stays,
And never seems to think of lunch.

अनुवाद:

वह हमेशा बाजार लगने वाले दिनों में आता है। और गुब्बारों का सुन्दर गुच्छा पकड़े रहता है। बाजार के चौराहे पर वह खड़ा रहता है और दोपहर के भोजन के लिये भी सोचता प्रतीत नहीं होता है।

2. They are red and purple,
blue and green,
And when it is a sunny day,
Tho' carts and people get between,
You see them shining far away.

अनुवाद:

वे (गुब्बारे) लाल, और बैंगनी, नीले और हरे हैं। और ऐसे दिन जब धूप खिली हो और जबकि गाड़ियाँ और लोग बीच में हों तब भी तुम उन्हें दूर चमकता हुआ देख सकते हो।

3. And some are big and some are small
All tied together with a string,
And if there is a wind at all,
They tug and tug like anything.

अनुवाद:

कुछ गुब्बारे बड़े और कुछ छोटे हैं। सब एक धागे से बँधे हैं। यदि हवा चलती है तो वे किसी भी दिशा में खिंच जाते हैं।

4. Some day perhaps he'll let them go,
And we shall see them sailing high,
And stand and watch them from below,
They would look pretty in the sky !

अनुवाद:

किसी दिन शायद वह उन्हें उड़ जाने देगा, और हम उन्हें ऊपर तैरते हुए देखेंगे, और हम खड़े होकर नीचे से उन्हें देखेंगे, वे आकाश में सुन्दर दिखाई देंगे।